



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 3 राँची, गुरुवार,

2 जनवरी, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2019

संख्या- परि.वि.-(स्था.)-124-2015-1201- उपायुक्त, पलामू द्वारा स्थानीय एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू का प्रभार दिया गया है। श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णांकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री सिंह द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने ज़िलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोक-थाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

4. श्री सिंह मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग
झारखण्ड राँची।
